



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का सड़कें साफ करने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (31 मार्च, 2021) – इस सप्ताह से शुरू करते हुए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, रिहायश वाली सड़कों पर अपना 2021 का सड़कें साफ करने का प्रोग्राम (स्ट्रीट स्वीपिंग प्रोग्राम) शुरू करेगी। अन्य सभी क्षेत्रों की सफाई, मंगलवार, 6 अप्रैल को शुरू होगी।

सड़कों और सीवरों को साफ रखने के लिए वसंत के दौरान, सिटी की सड़कों से रेत और मलबा साफ किया जाता है। यह मलबे को, स्टॉर्म सीवरों में जाने से रोकता है और ड्राइवरों तथा पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और साफ सड़कें प्रदान करता है। वसंत का सफाई प्रोग्राम (स्प्रिंग स्वीपिंग प्रोग्राम) में शामिल है:

- सिटी के स्वामित्व वाली सभी सड़कों पर लुक की ऊपरी परत, पुलों, कैच बेसिनों और गटरों सहित
- सख्त-सतह वाले बुलेवार्ड और बीच के क्षेत्र
- वे साइडवॉक्स और पगडंडियां, जिनसे सर्दी के दौरान सिटी के द्वारा बर्फ हटाई गई थी
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर्स और सिटी की अन्य फैसिलिटीज में पार्किंग लॉट्स
- बिना कर्ब्स वाली कंट्री रोड्स को धोया और/या साफ किया जाता है, जैसे आवश्यक हो
- साइडवॉक की सफाई
- नमक के बॉक्स और स्नो फेंसिंग को हटाना
- बुलेवार्डों को उच्च प्रेशर से धोना
- जमीन के घास से ढके क्षेत्र की मुरम्मत
- सिटी के पार्क्स डिपार्टमेंट (Parks Department) के साथ साझेदारी में, कूड़ा लेकर जाना

वसंत के सफाई प्रोग्राम के दौरान, निवासियों को याद दिलाया जाता है कि:

- रिहायशी सड़कों पर, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वाहन पार्क न करें
- सुनिश्चित करें कि ड्राइववेज पर पार्क किए वाहन, सड़क की ओर बाहर निकले हुए नहीं हैं
- कूड़ा एकत्र करने वाले दिनों को, कूड़े के कंटेनर और रिसाइकलिंग बॉक्सेज को सड़क से दूर रखें
- बास्केटबॉल और हाकी नेट्स को सड़क से दूर और कर्ब से काफी पीछे रखें
- स्थिति को समझें। जब सड़क की सफाई हो रही हो, तो थोड़ा शोर हो सकता है और मिट्टी उड़ सकती है
- धैर्य बनाए रखें क्योंकि ठंडा और बारिश वाला मौसम, सड़क साफ करने वालों को काम करने से रोकता है। प्रोग्राम का संचालन करने के लिए, तापमान लगातार ज़ीरो से अधिक होना चाहिए

वसंत के सफाई प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने के लिए और यह जानने के लिए कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca